



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 23, 2008/माघ 3, 1929

No. 38]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 23, 2008/MAGHA 3, 1929

वित्त मंत्रालय

( वित्तीय सेवाएं विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2008

सा.का.नि. 48(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) (संशोधन) नियम, 2008 है।
- (2) ये 1 अप्रैल, 2007 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
2. भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) नियम, 1972 की अनुसूची 6 में खंड 2 के उप-खंड (3) में "1,00,000 रु." संक्षेपाक्षरों और अंकों के स्थान पर "2,00,000 रुपए" संक्षेपाक्षर और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. एलआईसी 14014/01/2006-बीमा II]

वी. पी. भारद्वाज, निदेशक

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं को संदाय किए जाने वाले उपदान पर अधिकतम सीमा को 1 अप्रैल, 2007 से पुनरीक्षित करने के लिए अनुमोदन दे दिया है तदनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) नियम, 1972 को 1 अप्रैल, 2007 से संशोधित किया जा रहा है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी अभिकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

**पाद टिप्पणी :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, तारीख 1 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या डीईवी/एजी/आरईजीएन/जीओवी. 4/डीजेडएम के अधीन प्रकाशित किए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. 81(4)/बीमा-2/75 तारीख 1 सितम्बर, 1976; सं. 81(12)/बीमा-2/78 तारीख 1 सितम्बर, 1978; सं. सा.का.नि. 487 तारीख 29 मई, 1982; सं. सा.का.नि. 228 तारीख 29 मार्च, 1986; सं. सा.का.नि. 251 तारीख 11 अप्रैल, 1987; सं. सा.का.नि. 811 तारीख 13 अक्टूबर, 1989; सं. 1 तारीख 5 जनवरी, 1991 में, सं. सा.का.नि. 4 तारीख 5 दिसम्बर, 1990; सं. 50 तारीख 15 दिसम्बर, 1990; में, सं. सा.का.नि. 745 तारीख 15 दिसम्बर, 1990; सं. 39 तारीख 28 सितम्बर, 1991; में, सं. सा.का.नि. 547 तारीख 12 सितम्बर, 1991; सं. 4 तारीख 25 जनवरी, 1992 में, सं. सा.का.नि. 35 तारीख 14 जनवरी, 1992; सं. 263 तारीख 6 अगस्त, 1993 में, सं. सा.का.नि. 534(अ) तारीख 6 अगस्त, 1993 और सं. 276 तारीख 16 मई, 2000 में, सं. सा.का.नि. 462(अ) तारीख 16 मई, 2000 द्वारा संशोधित किए गए थे।

सं. सा.का.नि. 35 के शुद्धि-पत्र सं. 5 तारीख 30 जनवरी, 1993, में सं. सा.का.नि. 59 तारीख 4 दिसम्बर, 1992 और सं. 20 तारीख 14 मई, 1994 में, सं. सा.का.नि. 221 तारीख 26 अप्रैल, 1994 द्वारा प्रकाशित किये गये थे। सं. सा.का.नि. 534(अ) का शुद्धि-पत्र सं. 185 तारीख 28 अप्रैल, 1994 में, सं. सा.का.नि. 420(अ) तारीख 26 अप्रैल, 1994 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2008

**G.S.R. 48(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956); the Central Government hereby makes the following rules to amend the Life Insurance Corporation of India (Agents) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Agents) (Amendment) Rules, 2008.  
(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2007.
2. In the Life Insurance Corporation of India (Agents) Rules, 1972, in Schedule VI, in clause 2, in sub-clause (3), for the abbreviations and figures “Rs. 1,00,000”, the abbreviations and figures “Rs. 2,00,000” shall be substituted.

[F. No. LIC 14014/01/2006-Ins. II]

V. P. BHARDWAJ, Director

### EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise the ceiling on gratuity being paid to the Agents of the Life Insurance Corporation of India with effect from 1st April, 2007. The Life Insurance Corporation of India (Agents) Rules, 1972 are being amended accordingly with effect from 1st April, 2007.

It is certified that no Agent of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the amendment being given retrospective effect.

**Footnote:** The principal Rules were published under Notification No. Dev./Ag/Regn./Gov.IV/DZM in the Gazette of India dated 1st May, 1972 subsequently amended by Notification Nos. 81(4)/Ins.II/75 dated 1st September, 1976; No. 81(12)/Ins.II/78 dated 1st September 1978; No. G.S.R. 487 dated 29th May 1982; No. G.S.R. 228 dated 29th March, 1986; No. G.S.R. 251 dated 11th April, 1987; No. G.S.R. 811 dated 13th October, 1989; in No. 1 dated 5th January, 1991 *vide* No. G.S.R. 4 dated 5th December, 1990; in No. 50 dated 15th December, 1990 *vide* No. G.S.R. 745 dated 15th December, 1990; in No. 39 dated 28th September, 1991 *vide* No. G.S.R. 547 dated 12th September, 1991; in No. 4 dated 25th January, 1992 *vide* No. G.S.R. 35 dated 14th January, 1992; in No. 263 dated 6th August, 1993 *vide* No. G.S.R. 534(E) dated 6th August, 1993; and in No. 276 dated 16th May, 2000 *vide* No. G.S.R. 462(E) dated 16th May, 2000.

Corrigenda to No. G.S.R. 35 were published in No. 5 dated 30th January, 1993 *vide* No. G.S.R. 59 dated 4th December, 1992 and in No. 20 dated 14th May, 1994 *vide* No. G.S.R. 221 dated 26th April, 1994. Corrigenda to No. G.S.R. 534(E) was published in No. 185 dated 28th April, 1994 *vide* No. G.S.R. 420(E) dated 26th April, 1994.